

Steelmakers' prospects receive a boost from improving China data


Rising demand, higher realisations also aid improvement in outlook

UJJWAL JAUHARI
New Delhi, 23 October


Domestic steel stocks remain on a strong footing, encouraged by positive economic data from China, improving realisations, and firm volume numbers reported by companies. After a strong rally since March-April lows and a correction thereafter, stocks of Tata Steel, JSW Steel, Jindal Steel and Power (JSPL) and Steel Authority of India (SAIL) have rebounded up to 26 per cent since September 24. And, analysts say there is more steam left in the rally. China's September data was encouraging as it saw 9 per cent year-on-year (YoY) surge in iron ore imports, while its steel exports declined 28 per cent YoY. Reuters reports suggest that Chinese production has improved, supported by strong demand from its infrastructure sector. This, to some extent, comforted the Street, as concerns had been building up on Chinese demand. According to latest data, China's gross domestic product (GDP) grew by 4.9 per cent in September quarter. Although analysts are keeping a watch on near-term Chinese demand after the National Day holidays, they feel winter production cuts should bode well for global steel prices and keep exports from China at low levels. Meanwhile, latest data from analysts' channel checks indicate that domestic



STRONG EARNINGS RECOVERY



ON THE RISE




hot-rolled coil (HRC) prices have risen for seven successive weeks to ₹43,528 a tonne, the highest since December 2018. This should help improve profitability of domestic steel companies, and the encouraging volume numbers posted by steel makers suggest that off-take too has improved, supported by flat steel segment used for manufacturing white goods and automobiles. Long steel products should also see pickup as construction activities have resumed after the monsoon season. Domestic steel producers have ramped up production to optimum capacity utilisation, say analysts, and the overall demand trend remains positive. The larger players with stronger balance sheets are likely to reap benefits compared with smaller peers. CARE Ratings says, the top five integrated steel companies account for 60 per cent of production and were able to gain further market share during the first half of financial year 2020-21 (H1FY21).

Among companies, JSPL remains most analysts' top pick. It saw strong volume growth of 36 per cent YoY during Q2, and with the company's capacity expansion projects complete, analysts expect benefits on operating leverage to also accrue. The pickup in construction activities should benefit JSPL more as long products constitute 70 per cent of its portfolio. It remains the preferred pick of Motilal Oswal Securities and the brokerage estimates 16 per cent annual growth in standalone Ebitda during FY20-22 and expects the divestment of its Oman business to lead to a 37 per cent decline in consolidated net debt to ₹23,900 crore. SAIL, too, is expected to benefit from the rebound in construction activities, because it has a large long-products portfolio. However, its high leverage remains a concern, say analysts. Meanwhile, Tata Steel and JSW Steel already have seen strong improvement in utilisation and were running at 100 per cent and 86 per cent capacity, respectively, at the end of Q2. While JSW Steel will also benefit from higher steel prices, it needs to be seen how it manages profitability in a rising iron ore price environment, as the company is dependent on external supplies for the key raw material. Tata Steel, the integrated player, will on the other hand benefit from resurgence in performance of Tata Steel Long Products and Tata Steel-BSL, say analysts. Credit Suisse, which remains positive on the steel cycle, is bullish on the sector and says India is relatively immune to higher ore costs, with integrated players (Tata, SAIL).

Most steel companies are expected to report strong improvement in per tonne profitability in Q2. Tata Steel BSL's financial performance is testimony to that as it reported Ebitda per tonne of ₹8,649 (up 73 per cent YoY), its highest level since Q1FY20. Analysts estimate Tata Steel, JSW Steel, and JSPL will report 19-45 per cent YoY growth in their per tonne profitability in Q2. Bourses in Hong Kong, Tokyo and Seoul closed up to 0.54 per cent higher, while Shanghai finished in the red. Stock exchanges in Europe were also trading in the green in early deals. Meanwhile, international oil benchmark Brent crude was trading 0.38 per cent higher at \$42.62 per barrel. In the forex market, the rupee depreciated 7 paise to close at 73.61 against the US dollar.

Sensex ends 127 pts higher; Nifty reclaims 11,900-level

BULL RUN



AGENCIES

Equity benchmark Sensex ended 127 points higher on Friday, primarily led by gains in auto, metal and power sector stocks amid positive cues from global markets. After rising 252.63 points during the day, the 30-share Sensex settled 127.01 points or 0.31 per cent higher at 40,685.50, and the broader NSE Nifty rose 33.90 points or 0.28 per cent to end 11,930.35.

Aditya Birla Fashion and Retail gave up some early gains to close 7.5 per cent higher at its best level since March 26 after Flipkart said it will buy a 7.8 per cent stake in the company. On the Sensex, Maruti Suzuki was the top gainer, rallying around 4 per cent, followed by M&M, Tata Steel, PowerGrid, Bajaj Auto and NTPC. "The market is precariously perched, fervently praying that the fiscal stimulus bill in the United States will be passed and

that a torrent of liquidity will flow into global equity markets," said Ajay Bodke, chief executive officer and chief portfolio manager (PMS) at Prabhudas Lilladher in Mumbai. Corporate results this week, dominated by consumer goods firms, have been a mixed bag, although most expected a rise in demand going forward. On the other hand, UltraTech Cement, HCL Tech, HUL and Bajaj Finserv were among the laggards. According to traders, domestic equities ended with

gains tracking largely positive cues from global markets. Bourses in Hong Kong, Tokyo and Seoul closed up to 0.54 per cent higher, while Shanghai finished in the red. Stock exchanges in Europe were also trading in the green in early deals. Meanwhile, international oil benchmark Brent crude was trading 0.38 per cent higher at \$42.62 per barrel. In the forex market, the rupee depreciated 7 paise to close at 73.61 against the US dollar.

Look at credit quality while choosing company FDs

Stick to deposits of firms with high rating

SANJAY KUMAR SINGH

Conservative retail investors and senior citizens find themselves in a predicament in today's low interest-rate environment. For instance, at 6.25 per cent, the interest rate on HDFC's 66-month fixed deposit (FD) is at a 43-year low, according to media reports. "The Reserve Bank of India's (RBI) benchmark repo rate is at 4 per cent. This has pulled lending, and, hence, deposit rates down," says Adhil Shetty, chief executive officer (CEO), BankBazaar. By moving from a bank FD to an AAA-rated corporate FD, you may be able to boost returns by about 100-150 basis points (bps). But be choosy. "Stick to FDs from corporates that have a strong parentage or the support of a government entity," says Shravan Kumar Sreenivasula, director, investment advisory and products, Aventus Wealth Management. The credit rating should be high. "Go with FDs that have AAA or at best AA+ rating," says Raghvendra Nath, managing director, Ladderup Wealth. He also suggests sticking to known names and market leaders. Do not go down the credit curve. "Many NBFCs are facing trouble in refinancing themselves. The risk of investing in them for an extra 100-200 basis points is not worth it," says Deepesh Raghaw, founder, PersonalFinancePlan, a Securities and Exchange Board of India-registered investment advisor. Before investing in a corporate FD, look up that company's bond yield. "If it is

very high, or trading volume is thin, you should reconsider," says Raghaw. Avoid locking yourself in instruments of above 12-24-month tenure. "If economic growth returns, the rate cycle could reverse and you could move to instruments offering better yields," says Sreenivasula. When looking for alternatives, consider several parameters — your investment horizon and liquidity requirement, post-tax returns, and risk. Among alternatives, the five-year Post Office Time Deposit Account, offering 6.7 per cent, may be considered as it offers Section 80C benefit. But Post Office products are not easy to operate. The RBI Floating Rate Bond (taxable), which offers 35 bps higher returns than the National Savings Certificate (7.15 per cent currently), is another option. As in corporate FDs, interest income from these products is taxed at the slab rate. Among long-term savings products, Public Provident Fund (7.1 per cent) and Sukanya Samridhi Account (7.6 per cent) remain attractive. Senior citizens looking to generate income may consider Senior Citizen Savings Scheme (7.4 per cent) and Prime Minister Yash Vandana Yojana (8-8.3 per cent). "Seniors may also consider the Life Insurance Corporation's annuity product (option) without purchase price option) Jeevan Akshay VII, which is giving 8.1 per cent to 60-year-olds and 10.5 per cent to 70-year-olds," says Raghaw.


More on business-standard.com



RETURNS OFFERED BY HIGHLY-RATED COMPANY FDs

Company	Credit rating	Interest rates (% p.a.)		
		1-year	3-year	5-year
KTDFC	Guaranteed by Kerala Govt.	8.00	8.00	7.75
Bajaj Finance**	CRISIL- FAAAICRA- MAAA	6.90	7.10	7.10
PNB Housing Finance***	CRISIL-FAA+ CARE-AA	6.20	6.60	6.70
LIC Housing Finance	CRISIL-FAAA	5.65	5.75	5.75
M&M Finance (Samruddhi Scheme)	CRISIL-FAAA	5.70	6.30	6.45
HDFC*	CRISIL-FAAAICRA-MAAA	5.65	5.95	6.05

*Monthly rests ** Rate benefit of 0.10% for online customers ***Regular deposit of up to ₹5 crore
#Regular deposit of up to ₹2 crore Data as on October 22, 2020; Source: Paisabazaar.com



Muthoot Homefin

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED SEPTEMBER 30, 2020

₹ in lakhs

Particulars	For the six months ended Sep 30, 2020	For the six months ended Sep 30, 2019	For the year ended March 31, 2020
	Unaudited	Unaudited	Audited
Total Income	11,588.18	15,230.99	28,760.10
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary items)	765.12	2,811.24	4,243.68
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	765.12	2,811.24	4,243.68
Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and Extraordinary items)	572.56	2,015.61	3,177.69
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	574.80	2,016.28	3,182.70
Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- Each)	11,915.59	11,915.59	11,915.59
Other Equity excluding Revaluation Reserves	31,259.65	29,518.43	30,684.85
Net Worth	43,175.24	41,434.02	42,600.44
Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	1,32,915.99	1,69,279.55	1,41,651.20
Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
Debt Equity Ratio	3.08	4.09	3.33
Earnings per equity share (Face Value of Rs. 10/- Each) (for continuing and discontinued operations)			
Basic (Rs.)*	0.48	1.69	2.67
Diluted (Rs.)*	0.48	1.69	2.67
Capital Redemption Reserve	-	-	-
Debenture Redemption Reserve	-	-	-
Debt Service Coverage Ratio	0.95	0.82	1.06
Interest Service Coverage Ratio	1.12	1.39	1.30
*Not annualised			

Note :
a) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on October 23, 2020. The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the aforesaid results.
b) The above is an extract of the detailed format of half yearly financial results to be filed with Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results shall be available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the Securities of the Company are listed and shall be available on the website of the Company at www.muthoothomefin.com
c) For the items referred in sub-clause (a), (b), (d) and (e) of Regulation 52(4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures shall be made to BSE Limited and shall be accessed on www.bseindia.com
d) These financial results have been prepared in accordance with Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended

Place : Mumbai
Date : 23.10.2020

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Eapen Alexander
Executive Director
DIN : 03493601

Muthoot Homefin (India) Limited
Registered Office: Muthoot Chambers, Kurians Tower, Banerji Road, Emakulam North, Kochi - 682 018, Kerala, India
Corporate Office : Unit No 1201-1202, 12th Floor, A - Wing, Lotus Corporate Park, W. E. Highway, Goregaon East, Mumbai - 400 063, Maharashtra, India
Corporate Identity Number : U65922KL2011PLC029231; Tel: +91 484 6690 599, +91 22 3911 0900, +91 22 3911 0999; Fax: +91 22 3911 0931
E-mail: ncd@muthoothomefin.com; Website: www.muthoothomefin.com

Muthoot Family - 800 years of Business Legacy

APOLLO PIPES LIMITED
CIN: L65999DL1985PLC022723
Registered Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi -110092
Corporate Office: Plot No. A-140, Sector-136, Noida-201301
Phone No: 0120 6587777
Email: compliance@apolloppipes.com
Website: www.apolloppipes.com


NOTICE
Notice pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 (LODR), is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, the 29th day of October, 2020, to inter-alia consider the following business:

- to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the second quarter and half year ended 30th September, 2020; and
- any other matter as may be considered appropriate by the Board.

Further please note that in accordance with Code of internal procedures and conduct for regulating, monitoring and reporting of trading by Insiders and pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the "Trading Window" for dealing in the Equity Shares of the Company is already closed from 01st October, 2020 and shall re-open on 01st November, 2020.

By order of the Board of Directors
For Apollo Pipes Limited
Sd/-
Ankit Sharma
Company Secretary

Place: Noida
Date: 23rd October, 2020



James Warren Tea Limited

Corporate Identification Number (CIN): L15491AS2009PLC009345
Registered Office : Dhoadam Tea Estate, P.O. Borahapjan, Tinsukia, Assam 786150;
Corporate Office: Aspirations Vintage, 12, Pretoria Street, Kolkata 700071, Tel: 91-33-40341000;
Fax: 91-33-40341015. E-mail: investors@jameswarrentea.com, Website: www.jameswarrentea.com
Contact Person: Pooja Jaiswal, Company Secretary and Compliance Officer.

FOR THE ATTENTION OF THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF JAMES WARREN TEA LIMITED ("COMPANY") IN RELATION TO THE CASH OFFER TO BUYBACK OF UP TO 17,40,000 (SEVENTEEN LAHKS FOURTY THOUSAND) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF THE COMPANY OF FACE VALUE OF ₹ 10 (RUPEES TEN ONLY) EACH ("EQUITY SHARES"), FROM ALL THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY AS ON FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2020, (THE "RECORD DATE"), ON A PROPORTIONATE BASIS, BY WAY OF A TENDER OFFER ROUTE THROUGH THE STOCK EXCHANGE MECHANISM AT A PRICE OF ₹ 114/- (RUPEES ONE HUNDRED AND FOURTEEN ONLY) PER FULLY PAID-UP EQUITY SHARE FOR AN AGGREGATE AMOUNT NOT EXCEEDING ₹ 19,83,60,000 (RUPEES NINETEEN CRORES EIGHTY THREE LAHKS AND SIXTY THOUSAND ONLY) ("BUYBACK"), EXCLUDING TRANSACTION COST UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED (SEBI BUYBACK REGULATIONS).


This advertisement is being issued by the Company pursuant to and in compliance with the SEBI circulars bearing number SEBI/CIR/CFD/CIR/CFI/CFR/2020/83 dated May 14, 2020 and SEBI/HO/CFD/CIR/CFI/CFR/2020/139 dated July 27, 2020 ("SEBI Relaxation Circulars") to supplement the Public Announcement dated September 05, 2020 that was published in all editions of the Business Standard, the English national daily newspaper and the Hindi national daily newspaper and in Jorhat and Gurehri edition of Assam Bhabru (Assam Daily) each with wide circulation on September 07, 2020 and the Letter of Offer dated October 23, 2020 ("LOF").

In terms of the SEBI Relaxation Circulars and in light of the COVID-19 situation, the LOF and the Tender Forms (along with Form SH-4) has been electronically dispatched to all the Eligible Shareholders holding Equity Shares as on Record Date i.e. Friday, September 18, 2020 and who have registered their email IDs with the Company/Depositories. The members who have not registered their email ID or did not receive the email dated October 23, 2020 may write to the Registrar at info@bseindia.com to obtain LOF and/or Tender Form in Electronic mode. The Company has not undertaken and will not undertake any physical dispatch of the LOF in compliance with the SEBI Relaxation Circular. The LOF along with the Tender Form and this advertisement will be available on the website of the Company i.e. www.jameswarrentea.com, the Manager to the Buyback i.e. www.fedex.in and the Registrar to the Buyback i.e. www.sebi.gov.in and is expected to be available on the Securities and Exchange Board of India i.e. www.sebi.gov.in, BSE Limited i.e. www.bseindia.com and The Calcutta Stock Exchange Limited i.e. www.cseindia.com. All shareholders holding shares as on the Record date, including shares held in physical form are eligible to participate in the Buyback. Eligible shareholders who wish to know their entitlement can do so by sending mail to the Registrar. Further, in case of non-receipt of the LOF, Eligible Shareholders holding Equity Shares may participate in the Buyback by providing their application in plain paper in writing signed by all Eligible Shareholders (in case of joint holding), stating name and address of the Eligible Shareholder(s), number of Equity Shares held as on the Record Date, Client ID number, DP Name, DP ID, beneficiary account number and number of Equity Shares tendered for the Buyback during the Tendering Period from Thursday, October 29, 2020 to Thursday, November 12, 2020. For detailed procedure for tendering Equity Shares and settlement, please refer chapter titled, "Procedure for Tender Offer and Settlement" on page no. 31 of the LOF.

DIRECTORS RESPONSIBILITY
As per Regulation 24(a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board accepts responsibility for all the information contained in this Advertisement and for the information contained in all other advertisements, circulars, brochures, publicity materials etc., which may be issued in the relation to the Buyback, and confirms that the information in such documents contain and will contain true, factual and material information and does not and will not contain any misleading information. Capitalised terms used in this Advertisement and not defined herein shall have the same meaning as ascribed in the LOF.

For James Warren Tea Limited
Sd/-
Pooja Jaiswal
Company Secretary & Compliance Officer


Place: Kolkata
Date: October 23, 2020




GUJARAT AMBUJA EXPORTS LIMITED

NURTURING BRANDS

Standalone Highlights for the Quarter Ended



PBT
Up
437%



PAT
Up
401%

"Committed to Growth"

STANDALONE FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR THE QUARTER AND HALF-YEAR ENDED 30 TH SEPTEMBER, 2020				
(₹ in Crores)				
HIGHLIGHTS	QUARTER ENDED		HALF YEAR ENDED	
	30.09.2020	30.09.2019	30.09.2020	30.09.2019
Net Sales	989.29	908.36	1817.56	1919.80
EBITDA	121.06	45.80	202.96	104.44
Cash Profit Before Tax	119.89	42.88	200.35	99.16
Profit Before Tax	93.13	17.33	146.30	48.51
Profit After Tax	72.87	14.55	110.20	37.23
Cash Profit After Tax	99.63	40.10	164.25	87.88
EPS (diluted) - in ₹ per share (Face Value of ₹ 2/-)	6.36	1.27	9.61	3.25

Regd. Office : "AMBUJA TOWER", Opp. Sindhu Bhavan, Sindhu Bhavan Road, Bodakdev, P.O. Thaltej, Ahmedabad - 380 059.
Ph. : +91 79 6155 6677, Fax : +91 79 6155 6678,
Email : info@ambujagroup.com Website : www.ambujagroup.com
CIN : L51440GJ1991PLC016151

Note : This is not a statutory advertisement. For detailed financial results, please refer our website www.ambujagroup.com

नई दिल्ली | 24 अक्टूबर 2020 शनिवार **बिज़नेस स्टैंडर्ड**

Public Notice for Surrender of Debenture Trustee License
M/s. Orbis Capital Limited
 Notice is hereby given to general public by M/s. Orbis Capital Limited having its registered office at 4A, Ocus Technopark, Sector 54, Golf Course Road, Gurgaon - 122002 that we are in the process of applying to Securities and Exchange Board of India (SEBI) for surrender of our registration vide no. IND0000000587 dated December 05, 2018 as Debenture Trustee. All our current assignments as a Debenture Trustee have been either fully terminated or transferred to another registered Debenture Trustee named M/s. Orbis Trusteeship Services Private Limited having registration no. IND0000000602 dated July 15, 2020.

Sd/-
 Ashwani Kumar
 Compliance Officer
 Orbis Capital Limited

***Note: Pursuant to Regional Director (RD) order dated April 27, 2020, Orbis Capital Limited has been merged with Orbis Financial Corporation Limited.**

अपीलो पाइप्स लिमिटेड
CIN: L65999DL1985PL022723
 चिकित्सा कर्मचारी, डॉ. हरीप्रसाद पावलेकर,
 चिकित्सा विभाग, एम.जी.एम. ११०००२
कॉम्प्लेक्स कायावला प्लॉट नं. P-140,
 सेक्टर-138, गोकर्ण-201301
 दूरभाष नं.: 0120 6587777
ई-मेल: compliance@apollopipes.com
वेबसाइट: www.apollopipes.com

सूचना

सेबी (सूचीकरण) दायित्व एवं प्रकटन आदेशाचारकर्ता) विनियमन, 2015 (रजिस्ट्रेशन) के विनियमन 29 के अनुसार पेशावर लक्षण हटावचारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सूचना प्रकटन के बिना प्रकटन के लिए कर्मचारी के निदेशक मंडल के द्वारा सूचना प्रकटन, 29 अक्टूबर, 2020 को समाप्त दिनांकित विवादाधीन तथा छमाही के लिए कर्मचारी के अनाधिकृत रूप से प्रकटन पर विचार एवं अनुमोदन करने के लिए, प्रकटन, तथा

2. बॉर्डर द्वारा उचित समझे जाने वाले अनाधिकृत की गुप्तता पर उचित समझे जाने के लिए।

Dixon
DIXON TECHNOLOGIES
(INDIA) LIMITED
Registered Office: B-14 & 15, Phase-II,
Noida, Gautam Buddha Nagar, UP-201305
E-Mail: investorrelations@dixoninfo.com,
Website: www.dixoninfo.com
Phone: +91-120-47373720,
Fax: 0120-47373263,
CIN: L22101UP1995PLC066581

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 30th October, 2020, to inter-alia, consider and approve the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results (provisional) for the Quarter and Half year ended as on 30th September, 2020 along with the statement of Assets and Liabilities & Statement of Cash Flow.

Further, in accordance to the Reg. 46 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the details of the aforesaid meeting are available on the website of the Company i.e. www.dixoninfo.com and the website of the Stock Exchange where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For Dixon Technologies (India) Limited
Sd/-
Aishw Kumar
Place: Noida Gr. Company Secretary
Date: 23.10.2020 & Compliance Officer

[illegible]

जयंत आर वर्मा
बाहरी सदस्य, भारतीय रिजर्व बैंक

बीएस सूडोकू 3877

परिणाम संख्या **3876**

		3		1	8		5	
8			4	5	6			9
1		6			2			
4	9					7		3
7	1	5		6		9		
			9				2	5
6		9		2		8		1
								6
2	8		6	3			7	

2	9	3	7	6	4	5	8	1
6	4	7	8	5	1	3	9	2
1	5	8	3	2	9	7	6	4
8	1	6	5	7	2	9	4	3
5	2	4	9	1	3	8	7	6
7	3	9	6	4	8	1	2	5
4	7	1	2	9	5	6	3	8
3	6	5	4	8	7	2	1	9
9	8	2	1	3	6	4	5	7

कैसे खेलें? बहुत आसान

हर, रो, कॉलम और 3
के बाई 3 के बॉक्स में
एक से लेकर नौ
तक की संख्या भरें।

क्षेत्रीय भाँवों के भाव	दिल्ली	उत्तर प्रदेश	पंजाब	
<p>दिल्ली</p> <p>सराफा: दिल्ली सराफा बाजार में 1800/8400, पटका 10000/10100, रिजेंकशन 7000/7200, चना दाल 6300/6400, चना देशी छना 6000/6100, चना चापा छना 6100/6200, मटर दिदेशी 7600/7800, उड़द साबुत (काला) 8800/10300, दाल उड़द (काली) 9000/11000, उड़द घोया 10000/11500, मसूर छोटी 7000/7400, मलका 6500/6700, किराना: जीरा 14800/18200, लालमर्ची गुंहर 17000/22000, हल्दी निजाम गट्टा (50 किलो) 3600/4300, धनिया एरामी 7400/10000, छोटी इलायची (किलो) 1700/2100, बड़ी इलायची 450/560, कानपुर गेहूँ लूज 1650/1660, जौ 1300/1320, चावल मसूरी 1900/2000, चावल मोटा 1850/1950, देशी चना 5800/5900, चना छना 6000/6200, दाल चना 6300/6400, विदेशी मटर 8000/8300, पिचकी 5800/6000, मटर</p>	<p>1800/8400, पटका 10000/10100, रिजेंकशन 7000/7200, चना दाल 6300/6400, चना देशी छना 6000/6100, चना चापा छना 6100/6200, मटर दिदेशी 7600/7800, उड़द साबुत (काला) 8800/10300, दाल उड़द (काली) 9000/11000, उड़द घोया 10000/11500, मसूर छोटी 7000/7400, मलका 6500/6700, किराना: जीरा 14800/18200, लालमर्ची गुंहर 17000/22000, हल्दी निजाम गट्टा (50 किलो) 3600/4300, धनिया एरामी 7400/10000, छोटी इलायची (किलो) 1700/2100, बड़ी इलायची 450/560, कानपुर गेहूँ लूज 1650/1660, जौ 1300/1320, चावल मसूरी 1900/2000, चावल मोटा 1850/1950, देशी चना 5800/5900, चना छना 6000/6200, दाल चना 6300/6400, विदेशी मटर 8000/8300, पिचकी 5800/6000, मटर</p>	<p>1800/8400, पटका 10000/10100, रिजेंकशन 7000/7200, चना दाल 6300/6400, चना देशी छना 6000/6100, चना चापा छना 6100/6200, मटर दिदेशी 7600/7800, उड़द साबुत (काला) 8800/10300, दाल उड़द (काली) 9000/11000, उड़द घोया 10000/11500, मसूर छोटी 7000/7400, मलका 6500/6700, किराना: जीरा 14800/18200, लालमर्ची गुंहर 17000/22000, हल्दी निजाम गट्टा (50 किलो) 3600/4300, धनिया एरामी 7400/10000, छोटी इलायची (किलो) 1700/2100, बड़ी इलायची 450/560, कानपुर गेहूँ लूज 1650/1660, जौ 1300/1320, चावल मसूरी 1900/2000, चावल मोटा 1850/1950, देशी चना 5800/5900, चना छना 6000/6200, दाल चना 6300/6400, विदेशी मटर 8000/8300, पिचकी 5800/6000, मटर</p>	<p>मुजफ्फरगढ़ गुड़ (40 किलो): लड्डू नया 1025/1100, खुरपा 950/1000, नाकू 980/1125, रसकट 975/1020, शक्कर 1140/1160, चीनी मिल जिला. (विचं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खलौली 3340, सिंहाड़ा 3220, घाया भवन 3240, बुढ़ना 3240, शमलती 3200, चीनी हाज़िर 3500/3550 हपड़ अनाज-दाल: गेहूँ 1735/1740, चावल परमल 2100/2200, डुप्लीकेट बासमती सेला 3900/4000, बासमती 1121 स्टीम 6100/6200, चना 5500/5550, चनादाल 6200/6300, काबली चना 7000/7500, राजमा देशी चित्रा 9500/10000, मटर दाल 6800/6900, दाल अहरर 9500/10000, चना 7000/7200, उड़द देशी 7800/7900, दाल उड़द 8500/9500, घोया 8500/10000, मूंग यूपी 6700/6800,</p>	<p>खवना जीएसटी अतिरिक्त (प्रति विचं.): राइसग्राव (शागर)(प्रति प्याईट) 120, राइसग्राव (अखाद्य) 118, खल सरसों 2500, डीसीसी: राइसग्राव बैच सपेक्ष 850, लाल 850, कंटीन्यूअस 850, सरसों (टहन) 20500, अनाज: गेहूँ 1780/1785, आटा (50 किलो) 1000, मैदा 1140, कोकर (49 किगा) 820, मक्खी बिहार 1380/1400 लुधियाना दाल-दलहन: राजमा चित्रा 9800/10500, अहरर दाल 9800/11000, उड़द साबुत 9300/9800, उड़द घोया 10000/11200, छिदक 9500/10000, दाल मसूर 7500/8500, चनादाल 6400/6700, एगो प्योर बैसन (35 किगा)/2550, काबली चना 6300/7500, मूंग साबुत 6700/7000, मूंग घोया 7500/8500, चावल: डीबी 4600/4700, हल्दी 7100/8500, एराणनगर</p>